

कोर्स कॅरिकुलम

इकाई	प्रसंग (विषय वस्तु)	कालखंड की संख्या
1	अंश एवं ऋणपत्र: अंशों का निर्गमन, अंशों का हरण और उनका पुनर्निर्गमन, बोनस अंशों का निर्गमन, अंशों का अभिगोपन, पूर्वाधिकार अंशों का शोधन, ऋणपत्रों का निर्गमन और शोधन.	15
2	वित्तीय विवरण एवं कंपनी के अंतिम खाते, कंपनी का समापन.	15
3	कंपनियों के समामेलन एवं आंतरिक पुनर्निर्माण के लिए लेखांकन.	15
4	ख्याति व अंशों का मूल्यांकन एवं सूत्रधारी कंपनियों का समेकित चिद्ठा केवल एक सहायक कंपनी के साथ.	15
प्रमुख शब्द	शेयर एवं डिबेंचर, कंपनियों के अंतिम खाते, कंपनी का परिसमापन, कंपनियों का समामेलन और पुनर्निर्माण, ख्याति और शेयर का मूल्यांकन, सूत्रधारी कंपनी की समेकित बैलेंस शीट.	

[illegible]

खंड-स: अध्ययन स्रोत/साधन		
पाठ्य पुस्तक,संदर्भग्रंथ एवं अन्य		
अनुशंसित ग्रंथ:-		
1. डॉ. एस.एम. शुक्ल एवं डॉ. के.एल.गुप्ता, साहित्य भवन प्रकाशन आगरा, हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम. 2. डॉ मंगल मेहता और अग्रवाल, इंदौर प्रकाशित किया. 3. डॉ करीम और खनूजा, एसबीपीडी, प्रकाशन, आगरा, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम. 4. गुप्ता आर.एल., राधास्वामी एम. कंपनी खाते, सुल्तान चंद एंड संस, नई दिल्ली. 5. जे.आर. मोंगा. कॉरपोरेट अकाउंटिंग के बुनियादी सिद्धांत, मयूर पेपर बैक, नई दिल्ली. नोट:- शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तकों के नवीनतम संस्करण का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।		
संदर्भग्रंथ:		
1. एम.सी. शुक्ला, टी.एस. ग्रेवाल, और एस.सी. गुप्ता, उन्नत खाते, खंड.II] एस. चंद एंड कंपनी, नई दिल्ली. 2. एस.एन. माहेश्वरी, और एस. के. माहेश्वरी, निगमित लेखांकन, विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली. 3. अशोक सहगल, कॉरपोरेट अकाउंटिंग के बुनियादी सिद्धांत, टैक्समैन प्रकाशन, नई दिल्ली, 4. वी.के. गोयल और रुचि गोयल, निगमित लेखांकन, पीएचआई लर्निंग. 5. जैन.एस.पी. और के.एल. नारंग, निगमित लेखांकन, कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली. 6. भूषण कुमार गोयल, फंडामेंटल्स ऑफ कॉरपोरेट अकाउंटिंग, इंटरनेशनल बुक हाउस. 7. पी. सी. तुलस्यान और भरत तुलस्यान, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एस.चंद. 8. अमिताभ मुखर्जी, मोहम्मद हनीफ, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, मैकया हिल एजुकेशन		
ऑनलाईन स्रोत:- ई-स्रोत/ई-पुस्तक/ई-पोर्टल:		
https://www.geektonight.com/corporate-accounting-notes/ https://commercemates.com/corporate-accounting/ https://academy.tax4wealth.com/blog/corporate-accounting https://www.youtube.com/watch?v=p0rxpzkSDLU https://ugcmoocs.inflibnet.ac.in/index.php/courses/view ug/19		
खंड-द: आंकलन और मूल्यांकन		
अनुशंसित सतत् मूल्यांकन प्रविधि:		
पूर्णांक – 100 अंक	सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIA) : 30 अंक अंत सेमेस्टर परीक्षा (ESE) : 70 अंक	
सतत् आंतरिक मूल्यांकन(CIA): (कोर्स शिक्षक द्वारा)	आंतरिक जॉच परीक्षा/प्रश्नोत्तरी परीक्षा(दो): 20+20 कार्यभार/सेमीनार+उपस्थिति:- 10 कुल अंक- 30	दोनों आंतरिक परीक्षा उच्चतर प्राप्तांक+कार्यभार में प्राप्तांक- 30 अंक के परिप्रेक्ष्य में अधिग्रहित किया जावेगा.
अंत सेमेस्टर परीक्षा: (ESE)	दो खंड- अ तथा ब खंड-अ:- प्र.01-वस्तुनिष्ठ प्रश्न-10x1=10 अंक, एवं प्र.02- लघुउत्तरीय प्रश्न- 5x4=20 अंक खंड-ब:- वर्णात्मक प्रकार के प्रश्न- 2 प्रति इकाई में से 1-1 प्रश्न हल करना-4x10=40 अंक	

हस्ताक्षर-सदस्य एवं संयोजक (केन्द्रीय अध्ययन मंडल):-

10/06/24
 10/06/24
 10/06/24
 10/06/24
 10/06/24
 10/06/24